



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 31, 2005/माघ 11, 1926

No. 29]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 31, 2005/MAGHA 11, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2005

विषय : चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम फार्मलिडिहाइड सल्फोक्साइलेट
(एस एफ एस) के आयात संबंधी पाटनरोधी जांच शुरु करना

सं. 14/25/2004-डीजीएडी.— मै0 ट्रांसपैक सिलोक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, कालाजी रोड, अटलाड़ा रोड, बड़ोदरा, गुजरात, मै0 डेमोशा केमिकल्स प्रा0 लि0, 105ए, मित्तल टावर्स, 210, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई, मै0 टी सी पी लिमिटेड टी.सी. पी सप्तगिरि भवन, नं0 4 (पुराना नं0 10) करपागम्बल नगर, मइलापुट, चेन्नई ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली और क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है) के अनुसार एक आवेदन दाखिल किया है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सोडियम फार्मलिडिहाइड सल्फोक्साइलेट (एस एफ एस) के पाटन से संबंधित पाटनरोधी जांच आरंभ करने का अनुरोध किया गया है।

और चूंकि प्राधिकारी ने यह पाया है कि संबद्ध देश की संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद है इसलिए प्राधिकारी किसी आरोपित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने, जिसकी यदि वसूली की जाती है तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार उक्त आरोपित पाटन तथा घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच प्रारंभ करते हैं।

घरेलू उद्योग

2. मै0 ट्रांसपैक-सिलोक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, कालाजी रोड, अटलाड़ा रोड, बड़ोदरा गुजरात, मै0 डेमोशा केमिकल्स प्रा0 लिमिटेड, 105 ए, मित्तल टावर्स, 210 नरीमन प्वाइंट, मुम्बई, मै0 टीसी पी लि0, टी सी पी सप्तगिरि भवन, नं0 4 (पुराना नं. 10) करपागम्बल नगर, मइलापुर, चेन्नई द्वारा घरेलू

उद्योग की ओर से टी पी एम कंसलटेन्ट्स के 3 ए साकेत, नई दिल्ली के माध्यम से आवेदन दाखिल किया गया है। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार आवेदक के पास 5(3)(क) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से पाटनरोधी जांच हेतु मामला दाखिल करने का आधार है।

विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद सोडियम फार्मलडिहाइड सल्फोक्साइलेट (एस एफ एस) (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) है जोकि चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

4. सोडियम फार्मलडिहाइड सल्फोक्साइलेट (एस एफ एस) का उपयोग मुख्य रूप से वस्त्रों की छपाई में डिस्चार्जिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग खाद्य पोलिमर्स, भेषजीय और विभिन्न उद्योगों में भी किया जाता है। यह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 28 के उपशीर्ष सं० 28311020 के अंतर्गत वर्गीकृत है। आवेदक का कथन है कि संबद्ध वस्तु का आयात उपर्युक्त उपशीर्ष के अंतर्गत किया जा रहा है। यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

5. आवेदक ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित वस्तु के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और चीन जनवादी गणराज्य से आयातित सोडियम फार्मलडिहाइड सल्फोक्साइलेट (एस एफ एस) भौतिक और रासायनिक गुणों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संबंध में तुलनीय, तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इसलिए जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित सोडियम फार्मलडिहाइड सल्फोक्साइलेट (एस एफ एस) और संबद्ध देशों से आयातित सोडियम फार्मलडिहाइड सल्फोक्साइलेट (एस एफ एस) पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर समान वस्तुएं हैं।

शामिल देश

6. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य है।

सामान्य मूल्य

7. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का दावा चीन जनवादी गणराज्य को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानते हुए उपयुक्त समायोजनों के साथ विनिर्मित उत्पादन लागत के आधार पर किया है। प्राधिकारी यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 एवं 8 को ध्यान में रखते हुए आवेदक के दावे की जांच का प्रस्ताव करते हैं। प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गयी विनिर्मित उत्पादन लागत के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य पर प्रथम दृष्ट्या विचार किया है और प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत करने के उद्देश्य से इस पर विचार किया है।

8. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का दावा परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर किया है। इस प्रकार प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य पर प्रथम दृष्ट्या विचार किया है और प्राधिकारी द्वारा इस पर जांच शुरू करने के उद्देश्य से विचार किया गया है।

निर्यात कीमत

9. निर्यात कीमत का दावा गौण स्रोतों से संकलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सूचना सेवा (आई बी आई एस) से लिए गए आंकड़ों के आधार पर किया गया है। निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, निर्यात के देश में अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन प्रहस्तन, पत्तन प्रभार, कमीशन आदि के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया गया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के लिए आवेदक द्वारा किए गए दावे के अनुसार निर्यात कीमत और समायोजन के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

पाटन मार्जिन

10. इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्ट्या यह पता चलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

11. आवेदक ने आरोपित पाटन के परिणामस्वरूप पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री गँवाई गयी बिक्री और घरेलू उद्योगों के लिए लाभप्रदता में आई भारी गिरावट के कारण उनके बाजार हिस्से में आई कमी के रूप में हुई क्षति के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण आवेदक को हो रही वास्तविक क्षति का पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य है।

जांच की अवधि

12. वर्तमान जांच में पाटन के उद्देश्य से जांच की अवधि 1 अक्टूबर, 2003 से 30 सितम्बर, 2004 तक है। तथापि क्षति की जांच में 2000-2001 से अक्टूबर, 2003-सितम्बर, 2004 तक की अवधि शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

13. संबंधित ज्ञात निर्यातकों और आयातकों तथा घरेलू उद्योग को, निर्धारित ढंग और तरीके से संबंधित सूचना दाखिल करने हेतु अलग से सूचित किया जा रहा है। कोई अन्य पक्ष जो वर्तमान जांच में भाग लेने का इच्छुक हो, निम्नलिखित को लिख सकता है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

समय-सीमा

14. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुँच जाए। निर्धारित समय-सीमा के भीतर यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी उपर्युक्त नियमानुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

15. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

16. उपर्युक्त नियमावली के नियम 7(1) के अनुसार प्रदत्त गोपनीय सूचना के लिए नियम 7(2) के अनुसार सभी हितबद्ध पार्टियां गोपनीय एवं अगोपनीय सार उपलब्ध करायेंगी।

17. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है और उसे उचित अवधि के भीतर अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

क्रिस्टी फेर्नांडेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2005

Subject : Initiation of Anti-Dumping investigations concerning imports of Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS) originating in or exported from China PR.

No. 14/25/2004-DGAD. — M/s. 'Transpek-Silox Industry limited, Kalaji Road, Atladra Road, Vadodara, Gujarat, M/s. Demosha Chemicals Pvt. Limited, 105 A, Mittal Towers, 210, Nariman Point, Mumbai, M/s. T.C.P. Limited, TCP Sathagiri Bhavan, No. 4 (Old No. 10) Karpagambal Nagar, Mylapore, Chennai have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on dumped articles and for determination of injury) Rules, 1995(hereinafter referred to as Rules) for initiation of anti dumping investigation concerning alleged dumping of Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS) originating in or exported from China PR.

AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject country, injury to the domestic industry and causal links between the dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Domestic Industry:-

2. Application has been filed by M/s. Transpek-Silox Industry limited, Kalaji Road, Atladra Road, Vadodara Gujarat, M/s. Demosha Chemicals Pvt. Limited, 105 A, Mittal Towers, 210, Nariman Point, Mumbai, M/s. T.C.P. Limited, TCP Sathagiri Bhavan, No. 4 (Old No. 10) Karpagambal Nagar, Mylapore, Chennai through T. P. M Consultants, K-3A Saket, New Delhi on behalf of the domestic industry. As per the evidence available applicant has the standing to file the case for anti dumping investigation on behalf of domestic industry as per Rule 2(b) and Rule 5(3)(a) of Anti Dumping Rules.

Product under consideration:-

3. The product under consideration is "Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS)" (hereinafter referred to as the subject goods) which is being dumped in the Indian market by the exporters from China PR.

4. Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS) is mainly used as discharging agent in textile printing. It also find uses in Food, Polymers, Pharmaceuticals and Miscellaneous industries. It is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-headings No 28311020. The applicant has stated that subject goods are being imported under above mentioned sub-headings. The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.

Like article:

5. The applicant has claimed that the goods produced by them are "like article" to the goods originating in or exported from the subject countries. Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS) produced by the domestic industry and imports from China PR are comparable, technically and commercially substitutable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. Therefore, for the purpose of investigation the Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS) produced by the applicant is being treated as **like article** of Sodium Formaldehyde Sulphoxylate (SFS) imported from subject countries within the meaning of the Anti Dumping Rules.

17 GI/05-2

Countries involved:

6. The country involved in the present investigation is China PR.

Normal value:

7. The Authority notes that the applicant has claimed normal value of subject goods in China PR based on constructed cost of production with appropriate adjustments treating China PR as non-market economy. The Authority proposes to examine the claim of the applicant in the light of Para 7 and 8 of Annexure I of Anti Dumping Rules, as amended. The Authority has prima-facie considered the normal value of subject goods in China PR on the basis of constructed cost of production as made available by the applicant and it has been considered by the Authority for the purpose of initiation.

8. The Authority notes that the applicant has claimed normal value of subject goods in China PR on the basis of constructed cost of production. Thus the authority has prima facie, considered the normal value of the subject goods in subject country on the basis of as information made available by the applicant and it has been considered by the Authority for the purpose of initiation.

Export Price:

9. The export price has been claimed on the basis of data obtained from International Business Information Services (IBIS) compiled from secondary sources. Price adjustments have been claimed on account of Ocean freight, marine insurance, inland transportation in the country of exports, port handling and port charges, commissions etc to arrive at the net export price. There is sufficient evidence of export price and the adjustments claimed by the applicant for the subject goods from the subject countries

Dumping margin:

10. There is sufficient evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the net export price indicating prima-facie that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject countries.

Injury and Causal Link :

11. The applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of fall in their market share because of increased volume of dumped imports, price undercutting, price underselling, lost sales and substantial decline in profitability for the domestic industries. There is sufficient prima-facie evidence of the material injury being suffered by the applicant caused by dumped imports from subject country.

Period of investigation:

12. The period of investigation for the dumping purpose of present investigation is 1st October 2003 to 30th September 2004. The injury investigation period will however cover the periods 2000-2001 to October 2003-September 2004.

Submission of information:

13. The exporters and importers known to be concerned and domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to:

The Designated Authority
(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

Time limit:

14. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

INSPECTION OF PUBLIC FILE:

15. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

16. All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7 (2), for the confidential information provided as per Rule 7 (1) of the Rules supra.

17. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

--
CHRISTY FERNANDEZ, Designated Authority